



Mrs. Vickie B. Turner, बोर्ड अध्यक्ष

Mr. Diijon DaCosta, उपाध्यक्ष

Mrs. Anna Hill

Mr. Marshall D. Orson

Mrs. Deirdre Pierce

Mrs. Allyson Gevertz

Dr. Joyce Morley

Mrs. Cheryl Watson-Harris, अधीक्षक

प्रिय DeKalb काउंटी स्कूल परिवार,

मुझे एक वर्ष के बाद कल सुबह हमारे विद्यार्थियों का आमने-सामने की शिक्षा के लिए स्कूलों में स्वागत करने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं इस स्कूल वर्ष को लेकर उत्साहित हूँ, मैं स्कूलों में पुनः-प्रवेश करने जा रहे विद्यार्थियों और साथ ही वर्चुअल रूप से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उत्साहित हूँ। COVID-19 की चुनौतियों के बावजूद, मेरा स्टाफ और मैं हमारे विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा का एक सफल और उच्च गुणवत्ता वाला अनुभव प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

जबकि शिक्षा में प्रगति हुई है और सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है, हम सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देना जारी रखेंगे। एक बार फिर से, हमारे स्कूल समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे विद्यार्थियों का रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) द्वारा रेखांकित शमन रणनीतियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। कृपया यहाँ पढ़ें किस प्रकार से हम शारीरिक दूरी बनाए रखने से हाथ धोने तक [DCSD को सुरक्षित रख रहे हैं](#)। यह जानकारी अन्य संसाधनों और अनुवादों के साथ-साथ [पुनःप्रवेश पेज](#) पर देखी जा सकती है। हमारे विद्यार्थियों को मास्क पहनने, स्कूलों में ऐसा करना ज़रूरी है, और अपने बच्चों को अस्वस्थ होने पर घर रखने जैसी COVID-19 संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद।

हमारे परिवारों और विद्यार्थियों के बीच मजबूत संबंधों का निर्माण विद्यार्थियों के प्रदर्शन और अकादमिक विकास को सुनिश्चित करता है। महामारी के कारण हमारे कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा की हानि हुई और DCSD उस हानि की भरपाई करने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि हमारे विद्यार्थी अकादमिक और सामाजिक रूप से विकसित हो पाएं। कृपया महामारी के दौरान आपने बच्चे को अनुभव हुई किसी भी चुनौती से निपटने, अकादमिक या सामाजिक-भावनात्मक समर्थन के लिए अपने बच्चे के स्कूल से संपर्क करें।

मैं उन परिवारों की बहुत आभारी हूँ जो अपने बच्चों और हमारे स्कूल समुदाय के जीवन को प्रतिदिन बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। साथ मिलकर, मुझे विश्वास है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर तरक्की को जारी रखेंगे और हमारे विद्यार्थी सफलताएं प्राप्त करेंगे।

सादर,

Mrs. Cheryl Watson-Harris